



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना गुलावठी**

थाना गुलावठी पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में ट्रक लूट की घटना में वांछित अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 05/06-12-2022 की रात्रि में थाना गुलावठी पुलिस टीम संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि उसी समय एक अभिसूचना प्राप्त हुई की दिनांक 03/04-12-2022 की रात्रि में थाना गुलावठी क्षेत्रान्तर्गत बुलन्दशहर-हापुड़ मार्ग पर हुए ट्रक लूट की घटना में शामिल दो बदमाश मुरादनगर जनपद गाजियाबाद में लूटे गये ट्रक के साथ पकड़े गये है तथा एक बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गया है, जो सिकन्द्राबाद रोड़ की तरफ से भटौना की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल भटौना बम्बे की पटरी पर ग्राम जिरावठी के सामने पहुँचकर सिकन्द्राबाद की ओर से आने वाले वाहनों/व्यक्तियों की चैकिंग करने लगे। कुछ समय पश्चात सिकन्द्राबाद की तरफ से एक बाइक आती दिखायी दी जिसको रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश बाइक को छोड़कर ग्राम जिरावठी की ओर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **जीशान पुत्र शाहिद निवासी ग्राम रियावली थाना रतनपुर जनपद मुजफ्फरनगर** के रूप में हुई हैं। जिसको उपचार हेतु सीएचसी गुलावठी में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा दिनांक 03/04-12-2022 की रात्रि में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सरिये से भरा एक ट्रक लूटने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 495/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- जीशान पुत्र शाहिद निवासी ग्राम रियावली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी-

- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस
- 2- 01 हीरो सुपर स्पलेन्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर

अभियुक्त जीशान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 184/18 धारा 323/324/325/354क/34 भादवि थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2- मुअसं- 495/22 धारा 392/411 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं- 498/22 धारा 307/34 भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं- 652/22 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 5- मुअसं- 775/22 धारा 392/411/34 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

थाना गुलावठी पुलिस टीम-

1. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी।
2. उ०नि० शिवशंकर, उ०नि० इकराम अली, उ०नि० रवि कुमार
3. है०का० माइकल, का० मोहित मलिक, का० कुशल तेवतिया, का० मोहन शर्मा, का० अन्नु नैन



मीडिया सेल बुलंदशहर